

समाचार पर्चीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» जब लेना हो होमलोन...

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत पांच वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, एकौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर ध्यान

किसान, गरीब, युवा व महिला को समर्पित मोदी का बजट



और अधिक जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में एप्लीकेशन में डिजिटल इंसेटिंग के लिए तीन योजनाओं को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि- ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार रोजगार पाने वाले को फहारन दिलाने में मदद करेंगी साथ ही रोजगार देने वाले तथा रोजगार प्राप्त करने वाले का सहयोग करेंगी।

कृषि लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और लचीलापन लाने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कई उपायों की घोषणा की गई है जिसमें डिजिटल सीतारमण अवसरंचना, तिलहन के लिए 'आत्मनिर्भरता', बड़े पैमाने पर सभी उत्पादन केंद्रों की स्थापना और झोपांग ब्लॉड-स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

केंद्रीय बजट में घोषित नींव प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलापन पहली प्राथमिकता है। बजट 2024-25 में कृषि और उत्सर्जन संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने 'अनन्दाम' (किसान) को 4 प्रमुख जारीयों में से एक बताया और कहा कि इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रमुख फसलों के लिए एक महीने पहले उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। यह लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के बावजूद के अनुरूप है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब राज्य अन्न योजना को अगले पांच के लिए बढ़ा दिया गया है। जिसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है।

कृषि डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना

प्रायोगिक परियोजना की सफलता से उत्सवाहित होकर, सरकार 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीनों को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना (डीपीएफ) को लागू करने में सहायता करेगी। केंद्रीय वित्त एवं

ने आज संसद में 'केंद्रीय बजट 2024-25' पेश करते हुए कहा कि इस साल डीपीएफ का योजनाओं को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि- ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार रोजगार पाने वाले को फहारन दिलाने में मदद करेंगी साथ ही रोजगार देने वाले तथा रोजगार प्राप्त करने वाले का सहयोग करेंगी।

दलहन और तिलहन मिशन

दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन के लिए निर्माण करने के लिए नियमित राजस्वना ने बताया कि सरकार और रोजगार देने वाले को रोजगार देने वाले तथा रोजगार प्राप्त करने वाले का सहयोग करेंगी।

साली उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक सभी उत्पादन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सभी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगी।

भूमि संबंधी सुधारों के लिए प्रोत्साहन

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, भूमि संबंधी सुधारों और कार्यों को उत्युक्त राजकोषीय सहायता के माध्यम से अगले तीन वर्षों के भीतर किसानों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुधारों में भूमि प्रावधान, योजना और प्रबंधन, तथा शहरी योजना, उपयोग और निर्माण संबंधी कानून शामिल होंगे।

श्रीमती सीतारमण ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में सभी भू-खण्डों के लिए विशिष्ट भूवर्ड पहचान संख्या (यूएलपीआईएस) अधिकारी भू-आधार निर्धारित करना, संवर्गीय मानितों का डिजिटलीकरण अवसरंचना (डीपीएफ) को लागू करने में सहायता करेगी। केंद्रीय वित्त एवं

की स्थापना, और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ा शामिल है। इन कार्यों से त्राण प्रवाह है और अन्य कृषि सेवाओं भी सुगम होंगी।

शहरी भूमि से जुड़े कार्यों के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी इलाकों में भूमि संबंधी रिकार्डों का जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यारों को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान ट्रैडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

पूँजीगत व्यय के लिए 1.11 लाख करोड़ का प्रावधान किया

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 'केंद्रीय बजट 2024-25' पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त वर्षों में अवसरंचना का नियमन करने तथा इसे बहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश का अर्थव्यवस्था पर अधिकार सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय संप्रेक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप, अगले 5 वर्षों में अवसरंचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। इस वर्ष, मैंने पूँजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया है। यह हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।

इसी तरह बुनियादी ढांचे के लिए मदद प्रदान करने को लेकर राज्यों के लिए वित्त वर्षों में अवसरंचना के अनुरूप, अगले 5 वर्षों में अवसरंचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। राज्यों को उनके संसाधन अवान्ट में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ का दीर्घावधि व्याप्र रहित राज्य का प्रावधान किया जाएगा।

अवसरंचना में निजी निवेश को बढ़ावा देने के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि समर्थकारी नियमों और विनियमों के माध्यम से अवसरंचना के अध्यधीन, अवसरंचना के लिए उसी नियमों की सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किये गए। राज्यों को उनके संसाधन अवान्ट में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ का दीर्घावधि व्याप्र रहित राज्य का प्रावधान किया जाएगा।

अवसरंचना में निजी निवेश को बढ़ावा देने के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि समर्थकारी नियमों और विनियमों के माध्यम से अवसरंचना के अध्यधीन, अवसरंचना के लिए उसी नियमों की सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किये गए। राज्यों को उनके संसाधन अवान्ट में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ का दीर्घावधि व्याप्र रहित राज्य का प्रावधान किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज्यों को लेकिन यह लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार में जोड़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने एक साल बाद राज

छत्तीसगढ़

बालोद में बाढ़ का कहर, स्कूलों में भरा पानी

■ बस स्टैंड बने तालाब, लोग बना रहे रील, कलेक्टर ने की अपील

बालोद। बीते तीन दिनों से ही रही बारिश ने बालोद जिले का सूखा खत्म कर दिया है। लेकिन कई ऐसे हादसे सामने आए हैं। जिसने दिल दहला दिया है। वहीं जलभाव के कारण स्थिति अब बद से बदलते हो रही है। पहले दिन कार सफिर नाले में झुंझुने से भानपुरी निवासी एक डॉक्टर की मौत हुई तो दूसरे मुझेगुणा निवासी एक युवक की चपेट में आया। जिससे बसकी मृत्यु हो गई। वहीं बीते रात एक छह लोगों से भरी कार बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम सांकरा और बरही के बीच बने नाले में बह गई। हालांकि कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कार जो है वो नाले में बह गई है और पानी कम होने के बाद कार का रेस्यू किया जाएगा।

आपको बता दें कि शहर का बस स्टैंड स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। बस स्टैंड के बाजू से गुजरने वाले एन-एच 930 के निर्माण के साथ ही ड्रेनेज स्ट्रिट की पोल खल गई है। बस स्टैंड में 3 फीट तक पानी भर गया और जिसके कारण आवागमन प्रभावित रहा बड़े टायर वाले वाहन जैसे बस स्टैंड में घुसे लेकिन यहां पर छोटे वाहन का घुस पाना असम्भव था।



आधा दर्जन स्कूलों में घुसा पानी

बारिश के बजह से आधा दर्जन स्कूलों में ताला लगा हुआ है। जिसमें गुरुत तहसील के स्कूल सबसे ज्यादा शामिल हैं। यहां पर डोट पर लगाए गए स्कूल जलमान हो गया है। जिसके कारण बच्चों को छुट्टियां दें दी गई हैं। इसी तरह हाल कुछ शासकीय दफतरों तक भी पानी पहुंच गया और कर्मचारियों की संख्या भी काफी कम रही। स्कूल कॉलेज में भी बच्चों की उपस्थिति बेहद कम रही।

तीन से जलाशयों का बढ़ा जल स्तर

आपको बता दें कि इस वर्ष तांडुला जलाशय का जलस्तर सबसे निचले स्तर पर था। लेकिन दो दिनों

से हुई बारिश की बजह से तेजी से जलभाव दर्ज किया गया है। बर्तमान ने जलाशय दो दिनों के बारिश के बाद 23 फीट तक चला गया है। इसका कैचमेंट एरिया जंगल क्षेत्र की बजह से अब यहां पानी का आना बढ़ेगा। जिससे यह मंगलवार शाम तक 2 फीट और बढ़ सकता है। इस जलाशय को युश्हाहाली का प्रतीक माना जाता है। तांडुला जलाशय में 20 फीट से जलभाव बढ़ा जाता है। वहीं गोंदली कलेक्टर चन्द्रवाल ने कहा कि बालोद जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले एवं नीचले इलाजों में पानी का रस्ता काफी बढ़ गया है। ये से कठिन वर्ष में जिले के आपानों से भर्ती लोड किठने वाले लोगों की जाती है कि वे नदी नालों व जलभाव वाले स्थानों से दूर रहें। सड़क और पुल के ऊपर से पानी बहने की स्थिति में उस जगह को पार करने का जोखिम बिल्कुल भी ना उठाए।

बारिश की बजह से बालोद शहर के कई घरों में पानी भर गया है। आपको बता दें कि साथी कार्य पर के मोहल्ले जल मत न हो गए हैं और जो अवैध कालोनियां बालोद में बसी हुई हैं। वहीं भी पानी भर चुका है। यह पूरी घटना नेशनल हाईवे नियमण की बजह से सामने आई है। लोगों के घरों में बर्तन पानी में तैर रहे थे। बात रेलवे कॉलोनी की करें तो यह भी पूरी तरह जल मन हो गया है। लोगों को जीवन

अडानी सीमेंट फैक्ट्री में करोड़ों के कोयले की हेराफेरी, तीन ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार



कोयला लोड करके तीन ट्रक निकले थे। इसके बाद वो ट्रक बिलासपुर को गिरफ्तार किया।

ट्रक ड्राइवरों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो लोग अच्छे ग्रेड का कोयला लोड करके दीपका खदान से निकलते थे।

एसीसी प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि इस तरह का काम कई महीनों से हो रहा है और उन्हें करोड़ों का चुकाना है।

पुलिस ने तीनों ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

इसके बाद जामुल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर लव कुमार साहू (29 साल) निवासी नवगांव मोहदा

विलासपुर, रुपेश कुमार साहू (21 साल) निवासी नवगांव विलासपुर और राजेन्द्र प्रजापति

कोयला लोड करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किए थे।

जामुल थाना प्रभारी कपिल

देव पांडेय ने बताया कि एसीसी

सीमेंट कंपनी के बालोद

कोयला खदान से कोयला मांगता जाता है।

लेकिन जो कोयला आता है वह उसके ग्रेड का नहीं आता है। जामुल पुलिस ने शिकायत के आधार मार्ग दर्ज कर जांच में जुट गई थी।

मामले की जांच के दौरान पाया गया कि कोयला जिले की बालोद खदान से जानकारी नहीं दिया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गिरफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी नवगांव को गि�रफ्तार किया गया।

जामुल की जांच के दौरान निवासी न

संक्षिप्त समाचार

कई स्कूलों ने कर दिया आज छुटी का ऐलान, आज विधानसभा घेराव

रायपुर। कई स्कूलों ने कर दिया आज छुटी का ऐलान, इसलिए कि कंप्रेस का आज विधानसभा घेराव है और कई रास्ते रहेंगे बंद। बच्चों के बावजूद में साथों की सुरक्षा के लिहाज से कुछ निजी स्कूलों ने कर दिया आज छुटी तिया है। सिवायी धरना-प्रदर्शन के बीच स्कूल, कालोंगी, दफ्टर जाने वालों के साथ आम लोगों को तब भारी परेशानी होती है जब आवाजाही वाले रस्ते बंद कर दिए जाते हैं, पुलिस बेरिकेट्स लगा देती है और परिवर्तित मार्ग बताकर पल्ला झाड़ लेती है लेकिन बताये मार्ग पर गए तो निकलने में बंदों लग जाते हैं। निजी स्कूल मैनेजर्मेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुरु के मुताबिक सड़ू आमसिवानी, नरदहा, संमरिया साइड की करीब 22 निजी स्कूलों में सुझाकात दृष्टित रखते हुए बुधवार 24 जुलाई को अवकाश रहेगा। विधानसभा घेराव के चलते सोमवार से ही पंडी, खण्डहारडी जैसे इलाकों को बंद करना शुरू कर दिया गया है जिसमें स्कूल बच्चों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। प्रमुख स्कूलों में आर के शाड़ी विद्या मंदिर, भवन, धोपीघोर, जानगंगा, ब्राइटन, एन-एच गोयल आदि हैं। हालांकि स्कूल में छुटी का वह निर्णय स्कूल प्रबंधन का निजी है।

सरपिन पायलाट आज आएंगे रायपुर

रायपुर। अखिल भारतीय कंप्रेस कमेटी के महासचिव तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी रायपुर पायलाट आज सुबह 9 बजे नई दिल्ली से राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 9 बजे पंडी में स्थित मण्डी गेट के सामने आयोजित विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। 20.15 बजे वे रायपुर के माना विमानतल से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

नकली होलोग्राम केस में टूटेजा 3 दिन की कर्टरोडियल रिएंड पर

रायपुर। नकली होलोग्राम केस में मेरठ की जेल में बंद रियायर्ड आईएप्स अनिल दुटेजा से यूपी एसटीएफ की टीम पूछताछ करेगी। सोमवार को मेरठ कोर्ट में यूपी एसटीएफ ने दुटेजा की कस्टोडियल रिमांड के लिए आवेदन लगाया था। सुबाई के बाद कोर्ट ने 25 जुलाई तक कस्टोडियल सिमांड की मंजूर दे दी है। मेरठ कोर्ट में 5000 परों की चार्टर्सीट पेश किया गया था।

मंत्री राजवाडे ने शासकीय प्राथमिक शाला भौंजपुर पहुंचकर किया यात्रा अवलोकन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी

राजवाडे विगत दिवस जश्पुर प्रवास पर थी। मंत्री श्रीमती राजवाडे शासकीय प्राथमिक शाला भौंजपुर पहुंचकर वहां का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों से हालचाल पूछा और पढ़ाव के संबंध में जानकारी। सभी बच्चों को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए सलाह दी और नियमित स्कूल आने की किया गया। श्रीमती राजवाडे ने छोटे बच्चों से बड़े घार एवं दुलार से गिनती और पहाड़ पूछा, बच्चों ने गिनती एवं पहाड़ सुनाया। उन्होंने बच्चों का हासला अफजाई करते हुए निरंतर कड़ी मेहनत कर लक्ष्य प्राप्त करने शुभकामनाएं दी।

सदन में जलजीवन मिशन में

गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा

रायपुर। विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जलजीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नालय में जलजीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। कौशिक ने

सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी कंपनियों को इंपेलमेंट किस आधार पर कब-कब किया गया? कितने गांव में पानी पहुंचा है? कितने लोगों को पानी मिला? पूर्ववर्ती सरकार की वजह से जनता आज इसका खामियां भूगत रही है? विधायक धरमलाल कौशिक के प्रश्न पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में 883 संस्था का इंपेलमेंट किया गया है। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, जिसमें 11 अधिकारी शामिल होते हैं जो ये पूरा कार्य देखते हैं। इन सब कार्यों के लिए इनके समानों का अभी इंपेलमेंट राज्य सर पर होता है। इलेक्ट्रो क्लोनिंग 2022 में मिर्मांडों को नियुक्त किया गया। बाद में इसमें शिकायत पिलने पर इसकी जांच की गई है। हम लालतार कार्य कर रहे हैं, जहां गड़बड़ी मिल रही वहां कार्यवाही कर रहे हैं। जो इसमें ठेकेदार शामिल थे इसमें कार्यवाही भी की गई है। कई लोगों को निर्लाभित भी किया गया है। विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा, आपके सूचीबद्ध करने के बाद खरीदी हुई, लेकिन बाद में ये निरस्त बच्चों की किया गया था। इसमें आग की अधिकारी लगती है तो क्या इनके बीच स्कूलों में घरेंगे और किसी बच्चे को बदला देंगे?

मूलत ने पूछा कि यदि डी.पी.आर. तैयार किया गया थे? यदि हां, तो क्या आज इसके बीच स्कूलों में घरेंगे? यदि हां, तो किसके द्वारा किया गया? नगर निगम रायपुर के अधिकारी गांवों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूलों के नियमांश साथ साव ने बताया कि रायपुर शहर के 15 इलाकों में नये सिरे से बताया कि अनुरूप पाईप लाईन बिछाने की अवश्यकता है।

मूलत ने पूछा कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई योजना जैनएनपूर्नाराएम के अंतर्गत रायपुर नगर जल प्रदाय योजना/अमृत मिशन योजना जो सुडा स्मार्ट सिटी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा नगर निगम रायपुर द्वारा किया गया है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है।

मूलत ने पूछा कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसके द्वारा किया गया? नगर निगम रायपुर के अधिकारी गांवों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूलों के नियमांश साथ साव ने बताया कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसके द्वारा किया गया है। नगर निगम रायपुर के अधिकारी गांवों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूलों के नियमांश साथ साव ने बताया कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसके द्वारा किया गया है।

मूलत ने पूछा कि यदि डी.पी.आर. तैयार किया गया थे? यदि हां, तो क्या आज इसके बीच स्कूलों में घरेंगे? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किसकी गांवों द्वारा किया गया? नगर निगम रायपुर के अधिकारी गांवों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूलों के नियमांश साथ साव ने बताया कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसके द्वारा किया गया है।

मूलत ने पूछा कि यदि डी.पी.आर. तैयार किया गया थे? यदि हां, तो क्या आज इसके बीच स्कूलों में घरेंगे? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किसकी गांवों द्वारा किया गया? नगर निगम रायपुर के अधिकारी गांवों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूलों के नियमांश साथ साव ने बताया कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसके द्वारा किया गया है।

मूलत ने पूछा कि यदि डी.पी.आर. तैयार किया गया थे? यदि हां, तो क्या आज इसके बीच स्कूलों में घरेंगे? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किसकी गांवों द्वारा किया गया? नगर निगम रायपुर के अधिकारी गांवों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूलों के नियमांश साथ साव ने बताया कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसके द्वारा किया गया है।

मूलत ने पूछा कि यदि डी.पी.आर. तैयार किया गया थे? यदि हां, तो क्या आज इसके बीच स्कूलों में घरेंगे? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किसकी गांवों द्वारा किया गया? नगर निगम रायपुर के अधिकारी गांवों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूलों के नियमांश साथ साव ने बताया कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसके द्वारा किया गया है।

मूलत ने पूछा कि यदि डी.पी.आर. तैयार किया गया थे? यदि हां, तो क्या आज इसके बीच स्कूलों में घरेंगे? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किसकी गांवों द्वारा किया गया? नगर निगम रायपुर के अधिकारी गांवों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूलों के नियमांश साथ साव ने बताया कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसके द्वारा किया गया है।

मूलत ने पूछा कि यदि डी.पी.आर. तैयार किया गया थे? यदि हां, तो क्या आज इसके बीच स्कूलों में घरेंगे? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किसकी गांवों द्वारा किया गया? नगर निगम रायपुर के अधिकारी गांवों द्वारा या अन्य विभाग द्वारा? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कूलों के नियमांश साथ साव ने बताया कि राजधानी रायपुर के नियमियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसके द्वारा किया गया है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

साय सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुप्रक पारित

वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुप्रक में 7 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल

छत्तीसगढ़ का बजट का आकार बढ़कर हुआ 01 लाख 54 हज



पेजबॉय हेयर स्टाइल 1950 के दशक में विकसित और लोकप्रिय हुआ था, ये ऐतिहासिक रूप से अंग्रेजी पेजबॉय द्वारा पहना जाता था, जिससे कि इस हेयर स्टाइल का नाम पड़ा। 1950 के दशक में कई प्रमुख फ़िल्म अभिनेत्रियों ने पेजबॉय हेयर स्टाइल रखा था और कई फैशनेबल महिलाओं ने भी अपनाया था।

आप लगें जरा हटके पेजबॉय स्टाइल

पेजबॉय हेयर स्टाइल एक तरह का हेयरकट है, जो सीधे, मध्यम और लंबे बालों के लिए तैयार किया गया है। पेजबॉय हेयर स्टाइल में बाल को कान के नीचे से कटा जाता है, जहाँ इसे अंदर की तरफ कर्त किया जाता है, रिवर्स पेजबॉय हेयर स्टाइल में बाल को बाहर की तरफ कर्त किया जाता है। हेयर स्टाइल को अंपसर बैंस के साथ भी किया जाता है, हालांकि यह जरूरी नहीं है।

एक अच्छी तरह से कटा गया पेजबॉय हेयर कट आसानी से संभाला जा सकता है। 1950 के दशक में यह एक नुकीला, स्टाइलिश लुक था, जो महिलाओं को आकर्षित करता था। किसी भी हेयर स्टाइल के साथ, पेजबॉय में कई सारे बदलाव संभव हो सकता है, कुछ इनमें से वास्तविक हेयर स्टाइल से अलग दिखते हैं। नरम लुक के लिए कुछ स्टाइलिस्ट पेजबॉय में बालों को हल्के से कर्त करते हैं, जिससे कि एक बेव्ह हेयर स्टाइल बन सके, जिन लोगों के साथ भाविक रूप से लहराते बाल होते हैं, वो भी पेजबॉय कट को अपनाते हैं। अन्य स्टाइलिस्ट अधिक संरचनात्मक पेजबॉय काटेदार परतों के साथ बनाये थे, बजाय विविध सीधे, एलेट पेजबॉय के साथ जोड़ कर।

पेजबॉय हेयर स्टाइल का लुक चेहरे पर बहुत अच्छी तरह से सेट होता है, खासकर अगर चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए, तो ये और भी उभर कर आता है। पेजबॉय आमतर पर महिलाओं पर देखा जाता है, हालांकि कई अभिनेत्रियों को फ़िल्मों में पेजबॉय लुक की बजाए करा करा मिला है। पेजबॉय हेयर स्टाइल इस सलाह की वजह से उपयोग किया गया, जिससे कि बाल कोमल और चमकदार बने।

यदि आप पेजबॉय हेयर स्टाइल का विचार कर रहे हैं, तो आप एक छवि के लिए खोज पर विचार कर सकते हैं, जिससे कि आप को एक सटीक हेयर स्टाइल मिले। हालांकि पेजबॉय एक बहुत ही बुनियादी हेयर स्टाइल है, पर अगर आप उस पर बदलाव कर रहे हैं और आप की अपनाई जाने वाली शैली का स्पष्ट होना जरूरी है। कई हेयरड्रेसर के पास हेयर स्टाइल की किटाबें होती हैं, जिसमें आप विशेष मॉडल की तरह अपने बालों को कटने का अनुरोध कर सकते हैं। बालों को कटवाते समय संचार महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा ही आप समझ सकते हैं कि आप को किस तरह का पेजबॉय हेयर स्टाइल चाहिए।

अपने सपने के घर को खरीदना हर किसी के लिए बड़ा रोमांचकारी अहसास होता है। लेकिन इस खुशी में कहीं आप अपने होमलोन को नजरअंदाज तो नहीं कर रही हैं। होमलोन लेते वक्त इन बातों का ध्यान रखेंगी तो कई परेशानियों से बच सकेंगी। हमेशा याद रखें कि होमलोन जंगल के एक शेर की तरह होता है, जो हर माह आपकी सैलरी का आधे से अधिक हिस्सा सालों तक खाता रहता है।

प्री पेमेंट पेनल्टी

यदि आप अपने लोन का समयावृत्त निपटने करना चाहती हैं तो इसके लिए प्री पेमेंट पेनल्टी बहुत होता है, जिसमें कुछ पेनल्टी के साथ आप अपना लोन एक बार मैं पूरी रकम अदा कर दुकान सकती है। कुछ बैंक यह पेनल्टी नहीं लेती हैं लेकिन कुछ बैंक परिस्थितियों के अनुसार इसे चार्ज करती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप सस्ती ऋण दर के कारण किसी दूसरे बैंक से लोन रिफ़इनेंस करवाती हैं और पहले बैंक का लोन प्री पेमेंट के जरिये बुकाना चाहती है तो इसके लिए वह बैंक जिससे आपने पहले लोन लिया है, आप पर भारी पेनल्टी लगा सकती है।

जब लेना हो होमलोन



लोन एग्रीमेंट करने से पहले उसमें दर्ज हर एक बिंदु पर बारीकी से नजर डालें और उसे अच्छी तरह समझने के बाद ही आखिर में उस पर हस्ताक्षर करें।

रेट ऑफ इंटरेस्ट

इंटरेस्ट लिए गए लोन पर व्यापक आपको हर महीने इंटरेस्ट पेनल के साथ देना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक फिवर्स्ट और द्वितीय इंटरेस्ट। इन दिनों प्लानिंग रेट का प्रचलन अधिक है। यहाँ एक अन्य दर भी प्रचलन में आई है, जिसे हम टीजर लोन कहते हैं, इसमें पहले कुछ सालों के लिए व्यापक दर सर्वती होती है।

बेस रेट में बदलाव

बेस रेट में कई बार बदलाव होते हैं। यह प्रत्येक बैंक के इंटरेस्ट पेनल्टीस और आरबीआई द्वारा रेपो व रिवर्स रेपो रेट में बदलाव पर आधारित होता है। बैंक बेस रेट से नीचे कभी भी ऋण नहीं देता है। किसी बैंक के लिए बेस रेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हीयर होता है और इसमें मार्केट के ड्रेसर के हिसाब से दूसरा रेट होता है। उभावता बेस रेट में बदलाव आने से इंटरेस्ट रेट में बदलाव आने के बाद प्रभावित होता है।

रिसेट बलॉज

फिवर्स्ट इंटरेस्ट रेट मामले में सामान्यतः रेट फिवर्स्ट होता है, लेकिन यह एक रिसेट बलॉज है, जिसकी मदद से प्रैवी बैंक को एक निश्चित अवधि के दौरान अपने

फिवर्स्ट रेट को बेस रेट के अनुसार बदलाव करने के लिए कह सकती है।

सुरक्षा कवर

जब प्रौपूर्णी की कीमत तेजी से नीचे गिरती हैं तो बैंक सिव्युरिटी कवर के वलॉज द्वारा आपसे प्रौपूर्ण देना चाहिए। जब आप बैंक से कानूनी साखित हो सकता है, जब मार्केट कठीशन सर्वतों इंटरेस्ट रेट के फेवर में होता है।

► अपनी जरूरत के हिसाब से प्रभावी इंटरेस्ट रेट के आधार पर फहले एक रफ एस्ट्रीमेट बना लें और यह देखें कि आप लंबी अवधि तक इसे आसानी से बदल कर सकती हैं या नहीं। टीजर लोन आपके काफ़ादे के लिए तभी काम कर सकता है, जब आप लोन को अत्यंत अवधि में ही समाप्त करने का लाभ करती है।

► बेस रेट में कमी आपे पर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट में भी कमी लाते हैं, लेकिन बैंक यह सुविधा केल नए लोन लेने वालों को ही देते हैं। इस पर आरबीआई ने फिर से सभी बैंकों से कहा है कि यह लाभ पुराने ग्राहकों को भी समान रूप से मिलाना चाहिए, इस बिंदु पर भी आप अपने बैंक से वर्च कर लाभ उठा सकती हैं।

► अंतम लोकिं सबसे खास बात यह है कि आप बैंक से जो भी बात करें, वह पूरा लिखित में होना चाहिए।

जिम की ओर बढ़ता महिलाओं का रुझान

आज की तेजी से भागती-दौड़ती जिंदी में हर कोई इन्ना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने लिए ही समय नहीं है। और ऐसी महिलाएं, जो सविस भी करती हैं, उनके पास यह कीर्तीनन समय का अभाव होता है। हालांकि क्या यह जाता है कि उनके मुकाबले घरेलू महिलाओं के पास काफ़ी समय होता है, लेकिन यह बात घरेलू महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जानता कि वे खुद किनी व्यस्त हैं। शायद यह व्यस्तता का ही दबाव है कि महिलागरों में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।



महिलागरों से छोटे शहरों तक: यह बदलाव बताता है कि महिलागरों से छोटे शहरों में घरेलू महिलाओं भी शामिल हैं। मजेदार बात यह है कि यह ट्रैट महिलागरों का ही नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और कर्कशों तक में महिलाओं के जिम खुल रहे हैं और इनमें घरेलू महिलाओं की तादात लगती है।

मध्यवर्ग में बढ़ता चलन: यह बात एक लंबे समय से की है कि यह ट्रैट महिलागरों का ही नहीं है, लेकिन वे कोसे पिट रहे हैं, बल्कि वेर्स और लंबे समय से बदलाव लगाते हैं। यह सच है कि पिछले कुछ सालों में लड़कियों की तुलना में घरेलू महिलाओं का रुझान बढ़ा है, द्वेनर विजय देता है, 'यह सच है कि पिछले कुछ सालों में लड़कियों की तुलना में घरेलू महिलाओं का रुझान जिम की ओर अधिक हुआ है।'

योग क्रियाओं का अध्यास: गुडगांव के एक बड़े

जिम पर अब

केवल पुरुषों

और

नौकरीपेशा

महिलाओं

का ही वर्षस्व

नहीं रहा।

पिछले कुछ

सालों में महानगरी, शहरों

और छोटे कस्बों की घटेल

महिलाओं ने भी जिम

ओर रुक्ख किया है।

जिम जाकर

ये महिलाओं

नहीं रहते हैं।

जिम जाकर

ये महिलाओं

नहीं रहते हैं।

जिम जाकर

</div

